

बी.ए. (सामान्य) संस्कृत
बी.एस.के.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा और उसके साहित्य की जानकारी प्रदान करना है।

प्रथम छमाही

बी.एस.के.एल.ए.-135
संस्कृत भाषा और साहित्य

यह पाठ्यक्रम 6 क्रेडिट का है। यह पाठ्यक्रम संस्कृत भाषा और उसके साहित्य से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में सन्धि, समास, कारक, शुकनासोपदेश, कुमारसम्भवम्, हितोपदेश, अनुवाद, संक्षेपण, पल्लवन, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन आदि विषय वर्णित हैं जिनके अध्ययन द्वारा विद्यार्थी संस्कृत भाषा और उसके साहित्य को समझने की क्षमता का विकास कर सकेंगे।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और वार्षिक

बी.एस.के.सी.-131
संस्कृत पद्य साहित्य

यह 6 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम संस्कृत पद्य साहित्य से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में नीतिशतक, रघुवंशम्, शिशुपालवधम् ग्रन्थों से श्लोकों को अध्ययनार्थ संग्रहीत किया गया है। इसके साथ ही महाकाव्य के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए प्रमुख कवियों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और वार्षिक परीक्षा

द्वितीय छमाही

बी.एस.के.सी.-132
संस्कृत गद्य साहित्य

यह 6 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम संस्कृत गद्य साहित्य से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में आप संस्कृत गद्य साहित्य के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया से परिचित होंगे तथा संस्कृत गद्य साहित्य के प्रमुख कवियों यथा दण्डी, बाणभट्ट, अम्बिकादत्त व्यास आदि के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को जानेंगे। इस पाठ्यक्रम में शुकनासोपदेश एवं शिवराजविजय नामक गद्यकव्य को आपके अध्ययन के लिए सम्मिलित किया गया है जिसके माध्यम से आप गद्य साहित्य को पढ़ने की क्षमता का विकास कर सकेंगे।

मूल्यांकन
सत्रीय कार्य और वार्षिक परीक्षा

बी.ए. (सामान्य) संस्कृत
बी.एस.के.

तृतीय छमाही

बी.एस.के.सी.-133
संस्कृत नाटक

यह 6 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम संस्कृत नाटक से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आप संस्कृत नाटक के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया, रूपक भेद तथा प्रमुख नाट्यकारों के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व से परिचित होंगे। इस पाठ्यक्रम में प्रतिमानाटकम् एवं अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक के कुछ अंकों को अध्ययनार्थ रखा गया है जिसके माध्यम से आप नाट्य साहित्य को पढ़ने की क्षमता का विकास कर सकेंगे।

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य और वार्षिक

चतुर्थ छमाही

बी.एस.के.सी.-134
संस्कृत व्याकरण

यह 6 क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम संस्कृत भाषा के व्याकरण से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में आपके अध्ययनार्थ सन्धि, समास एवं कारक प्रकरण को रखा गया है। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात् आप संस्कृत भाषा को सम्यक् रूप से पढ़ने, बोलने एवं समझने में सक्षम होंगे।

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य और वार्षिक परीक्षा

पंचम छमाही

बी.एस.के.ई.-141
आयुर्वेद के मूल आधार

यह 6 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम आयुर्वेद से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में आपके अध्ययन के लिए सुश्रुत संहिता से विषयों का ग्रहण किया गया है। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के पश्चात् आप आयुर्वेद के मूलभूत तत्त्वों से परिचित होंगे।

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य और वार्षिक परीक्षा

षष्ठ छमाही

बी.एस.के.ई.-142
रंगमंच और नाट्यकला

यह 6 क्रेडिट का पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम रंगमंच और नाट्य.कलाओं से सम्बन्धित है। इस पाठ्यक्रम में रंगमंच निर्माण, नायक एवं नायिका भेद, भाव, विलास, अभिनय कला आदि विषय वर्णित हैं जिनके माध्यम से आप अभिनय की कलाओं से परिचित होंगे।

मूल्यांकन

सत्रीय कार्य और वार्षिक परीक्षा